

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन 4 से 10 अक्टूबर तक आग से सुरक्षा सप्ताह मना रही है

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (2 अक्टूबर, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 4 से 10 अक्टूबर तक, आग से सुरक्षा सप्ताह (Fire Prevention Week) मना रही है। साथ ही निवासियों को भोजन पकाते समय सुरक्षित रहने की जानकारी दे रही है। इस वर्ष का विषय है, “*भोजन पकाते समय रसोई में हमेशा सुरक्षित रहें*”

रसोई में आग लगने की घटनाएं, ब्रैम्पटन में घरों में आग लगने का मुख्य कारण हैं। भोजन पकाते समय, सुरक्षित रहने के लिए, निवासी इन आसान उपायों का पालन कर सकते हैं:

- भोजन पकाते समय हमेशा रसोई में रहें
- भोजन पकाते समय अपने सेल फोन या टेलिविजन सहित, ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूर रहें
- यदि आपको भोजन पकाते समय रसोई से बाहर जाने की जरूरत हो, तो स्टोव बंद कर दें और चूल्हे से पतीला या कड़ाही हटा दें
- जब आपको नींद आ रही हो या आपने शराब पी हो या भांग (कैनाबिस) का सेवन किया हो तो कभी भी भोजन न पकाएं
- किसी भी उस चीज को अपने स्टोव से दूर रखें, जिसे आग लगने का खतरा हो (उदाहरण के लिए, ओवन के दस्ताने, लकड़ी के बर्तन, भोजन पैकेजिंग, तौलिए, पर्दे)
- भोजन पकाते समय, छोटी या तंग बाजू वाले कपड़े पहनें

आग से सुरक्षा सप्ताह संबंधी ऑनलाइन कार्यक्रम

इस वर्ष कोविड-19 (COVID-19) के कारण, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services) की आग से सुरक्षा सप्ताह संबंधी प्रोग्रामिंग आभासी (वर्चुअल) होगी। रोज़ाना सुझावों, रेसिपीज आदि के लिए, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज को [Twitter](#), [Facebook](#), और [YouTube](#) पर फॉलो करें!

सोमवार, 5 अक्टूबर को शाम 6 बजे, फेसबुक लाइव (Facebook Live) भाग के लिए [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के फेसबुक पेज \(City of Brampton's Facebook page\)](#) पर, फायर चीफ बिल बोएस (Bill Boyes) और जे. रेड एंड कंपनी फूड + ड्रिंक (J. Red & Co. Food + Drink) के शेफ जेसन रोसो (Jason Rosso) से जुड़ें। इसमें आग से सुरक्षा के कुछ सुझावों और सवाल पूछने के अवसर के साथ-साथ, स्वादिष्ट रेसिपी पेश की जाएगी!

रेगी किचन (Reggae Kitchen) के शेफ वेन रीड (Wayne Reid) के साथ, भोजन पकाने का भाग भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा – सीखें कि रसोई में सुरक्षित रहते हुए, आसान जर्क चिकन स्टिर फ्राई (Jerk Chicken Stir Fry) कैसे बनाना है।

आग से सुरक्षा सप्ताह, ब्रैम्पटन को [स्वस्थ और सुरक्षित शहर \(Healthy and Safe City\)](#) बनने में योगदान देता है।

हवाले

“आग से सुरक्षा सप्ताह, आग से सुरक्षा को प्राथमिकता बनाने के बहुमूल्य रिमाइंडर के तौर पर काम करता है। भोजन पकाते समय सुरक्षित रहना, अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से कई लोग कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद के लिए घरों में सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। मैं सभी निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे इस बारे में जानें कि भोजन पकाते समय सुरक्षित कैसे रहना है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हम सभी, आग से सुरक्षा रखने में भूमिका निभाते हैं। मैं निवासियों को सलाह देती हूँ कि वे अग्रसक्रिय रहें। रसोई में आग से सुरक्षा के बारे में जानें और अपने घरों व प्रियजनों को आग से सुरक्षित रखें। यदि हम सभी अपनी भूमिका निभाएं, तो ज़िंदगियां बचाई जा सकती हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी टीम, हमारे शहर और हमारे निवासियों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करते हुए, रोज़ाना काम करती है। मैं सभी निवासियों को सलाह देती हूँ कि वे इस बारे में जानकारी प्राप्त करें कि वे अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षित घर को सुनिश्चित करने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। इकट्ठे काम करने से, हम आग से सुरक्षा पाने में सफल हो सकते हैं।”

- शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“रसोई में आग लगने की घटनाएं, ब्रैम्पटन में घरों में आग लगने का सबसे पहला कारण हैं और आम तौर पर उन्हें आसानी से रोका जा सकता है। हमारी ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज टीम हमेशा प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहती है; हालांकि, निवासी भी हमारी आग से सुरक्षा टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके पास अपने घरों में आग की घटनाओं को रोकने का बहुत बड़ा अवसर होता है। जानें कि आपको अपने घर और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए क्या पता होना चाहिए।”

- चीफ बिल बोएस (Bill Boyes), ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।



Media Release

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca